

कोई पीवो राम रस प्यासा, कोई पीवो राम रस प्यासा।  
गगन मण्डल में अमी झरत है, उनमुन के घर बासा॥टेर॥  
शीश उतार धरै गुरु आगे, करै न तन की आशा।  
एसा मँहगा अमी बीकत है, छः ऋतु बारह मासा॥1॥  
मोल करे सो छीके दूर से, तोलत छूटे बासा।  
जो पीवे सो जुग जुग जीवे, कब हूँ न होय बिनासा॥2॥  
एँही रस काज भये नृप योगी, छोडया भोग बिलासा।  
सहज सिंहासन बैठे रहता, भस्ती रमाते उदासा॥3॥  
गोरखनाथ, भरथरी पिया, सो ही कबीर अम्यासा।  
गुरु दादू परताप कछुयक पाया सुन्दर दासा॥4॥